

JAY BHARAT MARUTI LIMITED Corporate Office : ° Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T : +91 124 4674500, 4674550 F : +91 124 4674599 W : www.jbmgroup.com

Ref. No: JBML/SE/Q2/23-24

Asst. Vice President, Listing Deptt., **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Plot C-1, Block G Bandra Kurla Complex,S Bandra (E), MUMBAI - 400 051 Date: August 22, 2023

The Secretary, **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001

Scrip Code: JAYBARMARU

Scrip Code: 520066

Sub: Newspapers Advertisement- Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in compliance with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, for intimating regarding the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on **Saturday, September 16, 2023**, through Video Conference/Other Audio Visual Means and other requisite information to the shareholders.

The aforesaid advertisement is also available on the website of the Company <u>www.jbmgroup.com</u>

Submitted for your information and records please.

Thanking you,

For Jay Bharat Maruti Limited

RAVI ARORA Digitally signed by RAVI ARORA Date: 2023.08.22 13:43:06 +05'30'

Ravi Arora Company Secretary Encl.: As above

Works

Plant 1: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T:. +91 124 4887200, F: +91 124 4887300 Our milestones are touchstones Plant II: Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Plant III: Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952 Plant IV: Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104-06. F: +91 11 26427100 CIN : L29130DL1987PLC027342 Email Id: ravi.arora@jbmgroup.com

Form INC-26	S. E. RAILWAY – TENDER e-Tenders are invited by Assistant Electrical PUBLIC NOTICE	POSSESSION NOTICE	G2 NORTHERN RAILWAY
Public Notice	Engineer(REVSER/Adra, S.E.Railway, Adra "IkkJutt Jammu" has applied	or the (for immovable property)	Invitation of Tenders through E-Procurement system
[Pursuant to Rule 30 of the Companies (incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI	for & on behalf of the President of India for Change of Name of the Pa		Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013	the following works : SI. No. & Tender "IkKJutt Jammu" to "Ekam S	natan FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation	on behalf of the President of India, Invites e-tenders through e-procurement
and Clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies	Notice No.; Description of work; Approx. Tender Value : (1) TRD-ADA-e-Tender- Bharat Dal" and that anyone		system for supply of the following items:-
(Incorporation) Rules, 2014	17-2023, dated 18.08.2023; Adra: Proposal any objection to the propose	Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice	S. Tender No. Brief Description Qty. Closing
AND	for replacement of old and overaged PSI/ may send his objection with	dated 23.12.2019 calling upon the Borrower(s) SHALABH MALHOTRA AND	N0 Date
In the matter of SCA SOUTH ASIA PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED (CIN: U24231DL2009FTC189533), having its registered office situated	RC assets (phase-I); ₹ 1,96,64,365.71. month (30 days) on a plain	paper PARINEETA MALHOTRA to repay the amount mentioned in the Notice being	01 09232578 HOSE ASSEMBLY 7230 SET 13-09-23
at 211, 02nd Floor, Chanakya Complex B-10-11, Laxmi Nagar, Deihi,	(2) TRD-ADA-e-Tender-19-2023, dated 18.08.2023: Adra Division : Replacement		02 09233060 PU BASED GENTIAN BLUE 98059 LTR 25-09-23
Near Metro Pillar No. 43 Delhi East Delhi DL 110092.	of old 25 KV single pole/double pole ((Political Party), El		03 07230305A WHEEL SET EARTHING EQUIPMENT 2063 NOS 25-09-23
the Petitioner	isolators along with all accessories; Commission of India, Ni	ICRAN	04 07230089B INJECTION MOULDED 3518 NOS 25-09-23
NOTICE is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013,	₹1,10,29,706.19. The closing date & time Sadan Ashoka Road New	to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken	THERMOPLASTIC POLYSTER
seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in	of both e-tender for works above are on 110001. For Ankur Sharma 11.09.2023 at 15.00 hrs. and their opening	Symbolic possession of the property described herein below in exercise of	05 15225019A SELF PROPELLED TUNNEL RESCUE 3 NOS 06-10-23
terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on	of tender will be done on 11.09.2023 after	powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read	TRAIN [\$P-TRT]
August 09, 2023 to enable the Company to change its Registered Office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra."	15.00 hrs. Details of above e-tender may	with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 17.08.2023.	06 07233479 HOSE CONNECTION 650 MM LONG FOR 3755 NOS 09-10-23
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the	please be seen at website www.ireps.	The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the	BODY TO BOGIE
Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal	gov.in (PR-528)	charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of	NOTE -1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in
(www.mca.gov.in) by filing investor Compliant Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the		Rs.54,88,662/- (Rupees Fifty Four Lakh Eighty Eight Thousand Six Hundred	for details. 2. No Manual offer will be entertained. Tender Notice NO. 45/2023-2024 Dated : 21.08.2023 2588/2023
nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the	Zonal Office:- SCO 120-122, Firs ब्रिंक ऑफ महाराष्ट्र Sector 17-C. Chandigarh - 160		Tender Notice NO. 45/2023-2024 Dated : 21.08.2023 2588/2023
address B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi – 110003 within Fourteen days from the date of publication of	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra Ph.: 0172-2713010,	The bollower's attention is invited to provisions of odd-decidin (d) of	SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE
this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office address as	HING STREAM FILE COMPANY	o.in, Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.	
mentioned below:	சக யினா சக கீகை recovery_chd@mahabank.cd		
Regd. Office: 211, 02nd Floor, Chanakya Complex B-10-11, Laxmi Nagar, Delhi, Near Metro Pillar No. 43 Delhi East Delhi DL 110092	ANNEXURE 10	INDEPENDENT FLOOR NUMDERED AS WF-85/DUP HAVING SUPER AREA OF	VES BANK Registered Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai-400055.
For and on behalf of	AUCTION SALE NOTICE	APPROXIMATELY 171.86 SQ. METERS (1850 SQ. FOOT) ON 4TH FLOOR OF	Express Highway, Santacruz East, Mumbai-400055. Branch Office: Plot No. 1/9, Patel Nagar (West), New Delhi-110008, Website: www.yesbank.in
SCA South Asia Petrochemicals Private Limited,	The under mentioned persons are hereby informed that they have failed to pay		
-/- Mannish Lalitchandra Ghia	liability in the loan accounts. They are therefore requested to pay off the liab other charges and redeem the pledged securities on or before 30.08.2023 failin	HARYANA.	Sale Notice for Sale of Immovable Properties
Date: 22/08/2023 (Director)	other charges and redeem the pledged securities on or before 30.08.2023 failing the said securities will be sold by the Bank in public auction at the cost of the bor	Sd/-	U/r.8(6) read with Rule 9(1) of SARFAESI Rules
Place: Delhi DIN: 00542306	the Banks premises at 11:00 A.M. on 30.08.2023 or on any other convenies		E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation
	thereafter without further notice at the absolute discretion of the Bank. Parties int		and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest
	in purchase of the Gold Ornaments may participate in the auction.		(Enforcement) Rules, 2002
	Branch Date of Loan A/c Name & Address Re		Notice is hereby given to the public in general and in particular to the
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)	Address Loan Number of the Borrower Pri		Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable
SCO 33-34-35, 1st Floor, Sector 17-A, Chandigarh	Bank of Maharashtra, 26.12.2022 60434023121 Mrs. Mamta W/o Mark	***	property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)	SCO 3, Brass Market, Mukesh. Villageon [possession of which has been taken by the Authorised Officer of Yes Bank Ltd. i.e. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and
Case No.: OA/392/2019	HUDA, Sector 1, Jadra (87) Post Auct		"Whatever there is" on 15th September 2023, for recovery of Rs.16.84.692.72/-
Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read with Sub-Rule (2A) of Build 5 of the Data Beaucast Tilburg (Beaucadure) Builds 1993	Rewari, Haryana - Delhawas, Gulabpur,	Regd. Office: - Plot No. 3-A, 1 st Floor, Bik-X Loha Mandi, Naraina Industrial Area	(Rupees Sixteen Lakh Eighty Four Thousand Six Hundred Ninety Two
Rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 19743	123401. Distt. Rewari.	New Delbi South West - 110028	and Paise Seventy Two Only) due as on 18-May-2022 subject to further
BANK OF MAHARASHTRA Exn. No.: 19743 Vs	Date: 21.08.2023 BRANCH MANAGER, Rewari	anch Corp. Office: - Plot No. B-103, 2 rd Floor, South City I, Gurugram- 122001 Haryana	interest and charges at contracted rate, due to the Secured Creditor from (1) Ms. Kausar Idrish and (2) Mohd. Idrish. Inspection of the mentioned
TA NARENDER VASHISHT		Website: www.euroasiaexportsitd.com Mall: info@euroasiaexportsitd.com	property can be done on 8th September 2023 from 11:30 am to 12:30 pm
10, (1) Narender Vashisht	PUBLIC NOTICE	NOTICE TO SHAREHOLDERS	by the interested parties/ tenderer after seeking prior appointment with
D/W/S/O - Brahmachari Kaushalendra	NOTICE are hereby given that the below mentioned Sub Brokers / Authorised Person are affiliated as Sub Brokers / Authorised Person of Kotak Securities Limited.	longer	Authorized Officer.
Narender Vashisht Son of Brahmchari Kaushalendra, House No. 2084, AND 2085,	Pub Bushard Exchange Desistantian	Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 14th September, 2023 at 01:00 PM through Video Conference	Description of property
Sector 6, Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana.	Authorised Name Numbers of Sub Broker/ Authorised Doman	('VC')/Other Audio Visual means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice	Name of (1) Ms. Kausar Idrish & (2) Mohd. Idrish
(2) Brahmachari Kaushalendera, Surbhi Sewa Sadan, Beri Road, Near Tanda Heri,	Aditi Dhama Aditi Dhama NSE - AP0291118061 Shop No 3 Second Floor 34,	of the AGM, which is being circulated for convening the AGM.	Borrower/ Guaranter/ev/ Both R/o B-5/10, Flat No. GF-03, DLF Ankur Vihar, Loni
Jhajjar, Haryana. SUMMONS	MCX - 150286 Market , Near Gda Office, Gh	abad I In accordance to the provisions of the Act, read with the rules made thereunder and	security ' Gnaziabad-201102 Also at: A-365, Gail No7, Shri Ham
WHEREAS, OA/392/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar	201001	General Circular No. No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other Circulars issued by	provider/s Colony, Khajuri, Dayalpur, Delhi-110094
on <u>08.08.2023</u> .	Ashish Sahai Ashish Sahai NSE - AP0291438991 8 217, Indira Nagar, Luckno BSE - AP01067301144180 226016	Agra- the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the SEBI ("the	Amount Due Rs.16,84,692.72/- (Rupees Sixteen Lakh Eighty Four
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said	Deena Akta Deena Akta NSE - AP0291385511 Flat No 802 Arihant Altura, Abha	(hand Circulars"), Companies are allowed to hold the Annual General Meeting ("AGM") through	as on Thousand Six Hundred Ninety Two and Paise Seventy Two
Application under Section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 37.42.498/- (application along with copies of documents etc. annexed).	2 Indirapuram, Ghaziabad-2011	VC of OAVM without the physical presence of the Members at a common venue up to Sour	18-May-2022 Only)
n accordance with Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, you, the defendants are	Gaurav Garg Gaurav Garg NSE - AP0291540101 C 177 AApollo Hospital, Sector MCX - 157428 Gautam Buddha Nagar, Noida-	and Tooptember, 2020. In compliance with the relevant provisions of the companies Act, 2010	All the piece and parcel of the property situated at Plot No. B-5/10, LIG Flat No. GF-3, Ground Floor, Left Hand Back
directed as under:-	Gurmeet Singh Gurmeet Singh NSE - AP0291102441 7214 Tower-7 Als. One Hamle	I ("Act"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Ubildations and Disclosure)	Description Side at DLF Ankur Vihar, Village- Loni, Tehsil & District-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for	Chadha Chadha BSE - AP0106730198942 104, Gautam Budha Nagar, Noida	Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM and members can	of Property Ghaziabad, (U. P.).
should not be granted; (ii) to displace particulars of according to accord other than the state of according to the state of a contract	Ka Wealth Ka Wealth NSE - AP0291489163 in 4 303 Eldeco Amantra Private Limited Private Limited BSE - AP01067301146916 Expressway Service Rd Nr Ho	Fing.	Boundaries:- East: Plot No. B-5/11, West: Plot No. B-5/9,
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application:	Eldeco Magnolia Park Sec	shall be deemed to be the Registered Office of the Company.	North: Plot No. B3/17, South: 9.00 M wide Road
specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other	Noida-201307	The Notice of the AGM along with the Annual Report FY 2022-23, is being sent only by	Reserve Price (Rs.) Rs. 9,50,000/- (Rupees Nine Lakhs Fifty Thousand Only)
assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application,	Kanchan Kanchan NSE - AP0291116491 E 58 Lal Baag, Near Sabzi Ma Chauhan Chauhan MCX - 148024 Dehat, Ghaziabad-201102		Earnest Money Do OF 2004 (Runners Minster Files The user of Onter)
pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;	Kavita Sharma Kavita Sharma NSE - AP0291096381 H No-2/132, Rajendra Nagar	Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. tor-2, Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report FY 2022-23, will also be	Deposit (Rs.) Rs. 95,000/- (Rupees Ninety Five Thousand Only)
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary	BSE - AP0106730176843 Sahibabad, Ghaziabad-201005	available on the Company's website www.euroasiaexportsitd.com and website of the	Date of Physical Possession : 06-Mar-2023
course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the	Komal Surana Komal Surana NSE - AP0291100801 4/118 B Ram Nagar Colony, C Near Ramraghu Hospital Civ	Lines, Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the meeting	Date of Demand Notice : 22-Jun-2022
original application without the prior approval of the Tribunal;	Agra-282002	through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section	Last Date for submission of PID 12th September 2023 till 3.00 pm
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured	Meena Meena NSE - AP0291469961 Sk I 25 LGF 06 Shop, Indirapur Srivastava Srivastava Ghaziabad-201014	GZB, 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its members to	submission of BID
assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit	Srivastava Srivastava Ghaziabad-201014 Moonshine Way Moonshine Way NSE - AP0291560774 Plot No 465 1st Floor Uk 2, Ev		Date & Time of 15th September 2023 11:00 am to 2:00 pm
such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions	To Growth LLP To Growth LLP Greater Noida, Noida-201306	Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-	E-Auction with extensions of 5 minutes each
		Gaon, voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the	For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link
holding security interest over such assets.	Nidhi Kansal Nidhi Kansal NSE - AP0291108951 House No, 136 New, Ko		https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property provided in
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the	Ghaziabad-201001		
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.		aripur, If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting	Secured Creditor's website i.e. www.yesbank.in
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>.	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam	aripur. If your email Id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue
nolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons	Chaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP0167301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174	artpur, If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register our email address for obtaining the Annual Report and	
nolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>.	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam	aripur. If your email Id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. Incase you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and controls	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in
Tolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons	Chaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118011 B 10 Krishna Block Nandin Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura-281121	aripur, If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)
Tolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons	Chaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291468541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118101 8 10 Krishna Block Nandini Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathure 281121 Satya Prakash Satya Prakash NSE - AP0291394161 Flat 1055 Nit Khand, 1 Indi	anpur. If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. uddha In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: weight Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder
Tolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Nagar, Noida-203207 Puja Singh Puja Singh Kushwaha Puja Singh Kushwaha Puja Singh Kushwaha NSE - AP0291118101 NSE - AP0291118101 B 10 Krishna Block Nandini Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura-281121 Satya Prakash Kushwaha Satya Prakash Kushwaha NSE - AP0291394161 MCX - 159483 Flat 1055 Nili Khand, 1 Indi Ghaziabad, Ghaziabad, Ghaziabad, 101014	aripur, If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. indda In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: pwlock tadha Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2)	Chaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291468541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118101 8 10 Krishna Block Nandini Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathure 281121 Satya Prakash Satya Prakash NSE - AP0291394161 Flat 1055 Nit Khand, 1 Indi	anipur, inddia If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: wrink tadha Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylineta.com wlota. a. Signed request letter mentioning name of Shareholder,	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +91925003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +91 9265562821/18 & 9976591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888.
Tolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registran on 22.11.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291466541 80, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Satya Prakash Satya Prakash NSE - AP0291394161 B 10 Krishna Block Nandhin Dham, Vrindavan Methura, Ne Florence, Mathura-281121 Satya Prakash Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha Vardhman Jain NSE - AP029112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a Floreno, Alphane are no longer a	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com kolda, 4, 4, 4 a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs,
Including security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the piplication shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u> . Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) UNITED DESTRUCTION D	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291468541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Poja Poja NSE - AP0291118101 8 10 Krishna Block Nandini Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, Statya Prakash Kushwaha NSE - AP029134161 B 10 Krishna Block Nandini Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, 281121 Satya Prakash Kushwaha Satya Prakash Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Ghaziabad, Ghaziabad, Ghaziabad, 101014 Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: wrick tadha Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com wram, 4 a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of BAN Cerd and Agriar Cerd	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the
Including security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the piplication shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u> . Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) UNITED DESTRUCTION D	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291466541 80, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP029118101 B 10 Krishna Block Kandin Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura-281121 Satya Prakash Satya Prakash NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Gautam Budh Nagar, Noida-20101014 Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-2010102 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com Indata, ation, Demat Holding Plase contact your details for e-voting:	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish.kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +91925550221/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs,
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registra r on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of fhis Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hernkurt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi – 110 019. Ph : 011-26422100	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291486541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Satya Prakash NSE - AP0291394161 B 10 Krishna Block Nandhi Dham, Virindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, 281121 Satya Prakash NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no falling which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AU	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com kolda, didate, clated a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demail account as per the	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma-9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u> . Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L291300L1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, By.Nehru Place, New Delhi – 110 019. Ph.: 011-26427104; Fax: 011- 26427100	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291486541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Satya Prakash NSE - AP0291394161 B 10 Krishna Block Nandhi Dham, Virindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, 281121 Satya Prakash NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no falling which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AU	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com Roida, didate, clated Kotak Idate, sation, sation, a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account as per the process advised by your DP.	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish.kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +91925562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset. SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registra r on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of fhis Tribunal on this date <u>16.08.2023</u>. Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hernkurt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi – 110 019. Ph : 011-26422100	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118101 B 10 Krishna Block Nandhin Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, 281121 Satya Prakash Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Glaziabad, Ghaziabad, O10101 Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Ktdak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no failing which it shall be deemed that there exists no queries egainst the above mentioned SB/AU Costs isontime Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, T No: +22 43360000, Fax No: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotakscom	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com kolda, dida, dida, dida, dida, dida, dida, didate, com a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account as per the process advised by your DP. Kuna phone By the order of the Board of Directors	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset. SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS The above shall be treated as Notice U/r. 9(1) read with 8(6) of Security Interest
nolding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 22.11.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Siven under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u> . Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L291300L1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hemkurt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110 019. Ph: 011-26427104; Fax: 011- 26427100 E-mail: joml.investor@jmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP0201120322 Pooja Pooja NSE - AP02911466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118101 B 10 Krishna Block Kanda, Gautam MCX - 155174 Satya Prakash Satya Prakash NSE - AP0291384161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Kushwaha InSE - AP0291394161 Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Nola2-00 Gautam Budh Nagar, Nola2-00 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no falling which it shall be deemed that there exists no queries agains the above mentioned SB/AI Coats searche Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. (Dit: U99999MH1994H21C134051, 1 No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecuri Correspondence Address: infinity IT Park, Bidg. No 21, Opp. Film City Road, AK Vakiya Ma (East), Mumbai 400007. Telebohone No: +28256825, SEBI Registration No: INC000200137 (N	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com India, 4, 4 a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card Demat Holding Please contact your demail address in your demat account as per the process advised by your DP. By the order of the Board of Directors For Euro Asia Exports Limited Sd/	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder SupportNumbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset. SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS The above shall be treated as Notice U/r. 9(1) read with 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, to the Obligants to pay the same within 15 days
holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>22.11.2023</u> at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date <u>16.08.2023</u> . Signature of the Officer Authorised to issue summons Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 2) JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL 1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110 019. Ph: 011-26427104; Fax: 011- 26427100 E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com;	Ghaziabad-201001 Pinki Gupta NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 M BSE - AP01067301120322 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Pooja Pooja NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam MCX - 155174 Puja Singh Puja Singh NSE - AP0291118101 B 10 Krishna Block Nandhin Dham, Vrindavan Mathura, Ne Florence, Mathura, 281121 Satya Prakash Kushwaha NSE - AP0291394161 Flat 1055 Niti Khand, 1 Indi Glaziabad, Ghaziabad, O10101 Vardhman Jain NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93 Gautam Budh Nagar, Noida-20 Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer a with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own ri Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transaction Investors are requested to inform Ktdak Securities Ltd. within 15 days from the date of this no failing which it shall be deemed that there exists no queries egainst the above mentioned SB/AU Costs isontime Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, T No: +22 43360000, Fax No: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotakscom	If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting: Physical Mode Holding Send scanned copy of the following documents by email to Register and Share Transfer Agent/Company at info@skylinerta.com kolda, 4 a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and Complete address; b. Scanned Copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account as per the process advised by your DP. By the order of the Board of Directors for Euro Asia Exports Limited be of nelyst By the order of the Board of Directors Short Limited Short	In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/ e-bidding catalogue or Inspection of the Immovable Properties / Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Manish Kumar Contact No. +919250003060 and E-mail : manish kumar51@yesbank.in and officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Web Portal Address https://sarfaesi.auctiontiger.net Bidder Support Numbers: +919265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. E-mail: support@auctiontiger.net and ramprasad@auctiontiger.net. Contact person: Ram Sharma -9978591888. As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset. SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS The above shall be treated as Notice U/r. 9(1) read with 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, to the Obligants to pay the same within 15 days

. The 36th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday, September 16, 2023 at 12:15 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, and all other applicable laws and circulars issued from time to time, to transact the businesses set forth in the Notice of Annual General Meeting. The Company has appointed KFin Technologies Private Limited (KFINTECH), to provide VC/OAVM facility for the AGM.

- 2. In compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report for FY 2022-23 will be sent through electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent and Depository Participants. The Notice of Annual General Meeting and Annual Report for FY 2022-23 will also be made available on Company's website at www.jbmgroup.com, websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFINTECH at www.kfintech.com
- Members holding shares in physical form and who have not registered their email address may contact to KFINTECH at evoting@kfintech.com for receiving credentials for casting their votes through remote e-voting and attending the Annual General Meeting.

The member who have cast their vote by remote e-voting may attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Manner of registering/updating email addresses:

Members holding shares in physical Form, who have not yet registered their email address with the Company, are requested to register/update the same by submitting Form ISR-1 along with request letter mentioning their folio no., scan copy of share certificates (from front and back), self-attested copy of PAN and self-attested copy of any address proof to the Registrar and share Transfer Agent at F-65, 1* Floor, Okhla Phase I, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020. Members holding shares in dematerialized form, who have not registered their email ID are requested to register/update their email address with their respective depository participants with whom they maintain their Demat accounts.

Members holding shares in demat form are requested to update bank account mandate for receipt of dividend directly in their bank account through Depository participants and with the Company's Registrar and share Transfer Agent by making request along with cancelled Cheque.

Where members holding shares in physical form, can update their bank details by submitting duly filled Form ISR-1 to Registrar and share Transfer Agent of the Company at F-65, 1* Floor, Okhla Phase I, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020. Shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered address or can request to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time.

The register of members of the company will remain closed form Sunday, September 10, 2023 to Saturday, September 16, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of the member for the final dividend, if declared, for the financial year 2022-23.

The e-voting portal will be open for voting from Wednesday, September 13, 2023 (9.00 a.m.) to Friday, September 15, 2023 (5.00 p.m.). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date Saturday, September 9, 2023, will be entitled for the voting.

The 36th Annual General Meeting Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email ID in due course.

For Jay Bharat Maruti Limited Sd/-**Ravi Arora Company Secretary &** Date: August 21, 2023 Place: Gurugram **Compliance Officer**

Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Panorama, Nandan Vihar, ramnagariya, Japatpura, Jaipur-302017 Sh. Moht Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co-Borrower & Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Panorama, Nandan Vihar, ramnagariya, Jagatpura, Jaipur-302017 Smt. Swatt Makhijani W/o jitendra Goyal (Borrower &	Store, Inside Kumher Gate, Bharatpur-321001 standing in the name of Smt. Swati Makhijani W/o jitendra Goyal & Sh. Mohit Goyai S/o Sh. Narendra Goyal admeasuring 418.00 Sg. ft.	NPA Date	Rs. 36430 as or 10.08.2 further int on the contracted until paym full
Bharatpur-321001. Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co- Gate, Bharatpur-321001.	Borrower & Mortgagor) Add: H no 36		
demand amount in the bank along with the interest payable in the not	ce period otherwise the further action	will be taken in a	cordance w
	Smt. Śwati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Panorama, Mandan Vihar, ramnagariya, Jagatpura, Jajour-302017 Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co-Borrower & Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Panorama, Nandan Vihar, ramnagariya, Jagatpura, Jajour-302017 Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Inside Kumher Gate, Bharatpur-321001. Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co- Gate, Bharatpur-321001. Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), rower(s)/Guarantor are further advised that (1) they obtain the above demand amount in the bank along with the interest payable in the noti visions off the said Act.	Smt. Šwati Makhijani W/o`Jitendra Goyal (Borrower & Stuated at H no 386, Mohlt cloth Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bharya Heights, Near Mahima Store, Inside Kumher Gate, Panorama, Nandan Vihar, ranmagarya, Jagatpura, Jagubura, Jagubu	Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Shore, Inside Kumber Gate, Bharatour-321001 standling in the name of Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Co-Borrower & Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Mortgagor), Add: 406,4th Floor, Bhavya Heights, Near Mahima Bharatour-321001 standling in the name of Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Inside Kumber Gate, Bharatour-321001. Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 355, Mohit cloth Store, Inside Kumber Gate, Bharatour-321001. Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co-Borrower & Mortgagor) Add: H no 365, Mohit cloth Store, Inside Kumber Gate, Bharatour-321001. Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Narendra Goyal (Co-Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Gate, Bharatour-321001. Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: H no 365, Mohit cloth Store, Smt. Swati Makhijani W/o Jitendra Goyal (Borrower & Mortgagor), Add: A-152, Shiv Shakti Nagar, Model Town, Jagatpura rower (s)/Guarantor are further advised that (1) they obtain the above demand notice from the concerned branch office. (2)TI demand arount in the bank along with the interest payable in the notice period otherwise the further action will be taken in ac visions off the said Act.

DEMAND NOTICE

DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

Since the notices sent to you in the address in which you originally reside / carry on business / personally works for gain has not returned to us, we are constrained to cause this notice published. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the

Bank will be exercising all or any of the rights u/Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Branch Office: Adarsh Nagar, Jaipur

L	মাত্ৰাৰা হীন্থালাল। বীন্না punjab national bank	Branch Office: Adars Email: bo067210		DEMAND) NOTICE		A MENTOR		HOME LOANS INDIA LTD Iv known as Mentor India Limited)	
			(2) OF SECURITIZATIO			4	HOME LOANS	HEAD OFFICE- Mentor	House, B-9, Govind Marg, Sethi colony, Jalpur-	
AS	the Loan Account Become NPA their sets and enforcement of Security inter	efore The Bank Authorised Office rest ACT 2002 bed issued 60 day	er Under Section 13(2) of Securitisation demand notice to the borrower/quarar	on and Reconstr	uction of Financial		खुशियां आपकी साथ हमारा	Phone:0141-26119	99,8946800800, E-Mail: legal01@mentorloans.co	o.in
to	the Notice if the Borrower does not de	posit the Amount within 60 days.	The amount will be recovered from Au	ction of the secu	rity as given below.		APPENDIX IV [See Rule	8(1)] POSSESSI	ON NOTICE (For Immovable prope	orty) 🔵
the	Borrower(s)/guarantor(s) is inform	ed to deposit the loan amount alc	lemand notice has also been Affixed on ong with future interest and recovery e thorised Officer is free to take possessi	xpenses within 6	30 days, otherwise				oans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limit of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exerc	
S.	Loan Account Name of the Borro	1	Details of Properties/Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice	Amount outstanding	co Au	onferred under Section 13(12) Read With uthorised Officer of the Company to the Borr	Rule 3 of the Security Inter ower(S)/Co-Borrower(S)/	est (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (S) I Guarantor(S) mentioned herein below to repay amount	ssued by the
H	Loan A/c No. 06726011001563 (H		Equitable Mortgage of Property		Rs. 3643099.69		e notice within 60 days from the date of rece be horrower baying failed to repay the amou		etails given in below table:) the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) and	the public in
11	Smt. Swati Makhijani W/o`J	itendra Goyal (Borrower &	situated at H no 365, Mohit cloth Store, Inside Kumher Gate,	10/08/2023	as on 10.08.2023	ge	eneral that the undersigned has taken posse	ession of the property descri	ed herein below in exercise of powers conferred under	
	Panorama, Nandan Vihar, ramnagai	iya, Jagatoura, Jaipur-302017	Bharatpur-321001 standing in the		further interest	(4)) of the section 13 of the said Act read with R	ule 8 of the Security Interest	Enforcement rules, 2002.	
	Sh. Mohit Goyal S/o Sh. Nard Mortgagor), Add: 406,4th Floor,		name of Smt. Swati Makhijani W/o jitendra Goyai & Sh. Mohit		on the contracted rate	S.	Name of the Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor(S)	Date & Amount of		_ Date of
	Panorama, Nandan Vihar, ramnagai Smt. Swati Makhijani W/o J	iya, Jagatpura, Jaipur-302017	Goyal S/o Sh. Narendra Goyal	31/07/2023	until payment in	No	. & (Loan Account Number)	Notice u/s 13(2)	(Immovable Property)	Possession
	Mortgagor), Add: H no 365, Mohit		admeasuring 418.00 Sq.ft.		Tuli	1.	Hanuman Singh, Chanda Devi,	1-May-19	Patta No. 38, Gram Panchayat Boobani, Panchayat	
	Bharatpur-321001. Sh. Mohit Go Gate, Bharatpur-321001.	yal S/o Sh. Narendra Goyal (Co-	Borrower & Mortgagor) Add: H no 36	5, Mohit cloth Ste	ore, Inside Kumher		Guarantor- Bhanwar Lai LAN No MHL03371	Rs.871657/- dues as on 15-April-19	Samiti Srinagar, Dist. Ajmer, Rajasthan. Tota Admeasuring Area 150 Sq. Yds.	17/Aug/23
		Goyal (Borrower & Mortgagor),	Add: A-152, Shiv Shakti Nagar, Model	Town, Jagatpura	ı, Jaipur-302017	-	Nand Kishore, Chetan Devi, Vikra		Plot No. 165, Muskan Nagar, Samod Road, Gram	
			demand notice from the concerned br			12.	Jangid, Guarantor- Shakuntala Bai	Rs.708026/- dues	Morija, Tehsil Chomu, Dist. Jaipur, Rajasthan. Tota	
	e demand amount in the bank along w prisions off the said Act.	ith the interest payable in the noti	ce period otherwise the further action	will be taken in a	ccordance with the		LAN NoMHL04737	as on 11-Dec20	Admeasuring Area 100 Sq. Yds.	
	ate: 22.08.2023 Place : Bhara	lpur	Authorize	d Officer, Punja	ab National Bank				ovisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in re	
									public in general are hereby cautioned not to deal with lome Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor Indi	
							amount amount mentioned here under wi			

an amount, amount mentioned here under with interest thereon. Authorised officer. Mentor Home Loans India Ltd Date: 22-08-2023 Place: Rajasthan (Formerly Known as Mentor India Limited)



BRANCH:- DSS 84-85, HUDA Market, Sector 40, Gurgaon, Haryana - 122003, PH.: 0124-2581381 / 4074518 E-MAIL:- gurgaonsector40.chandigarh@bankofindia.co.in

Appendix-IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (for Immovable Property/ies)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the BANK OF INDIA, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) reac with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13(2) to below mentioned Borrower(s) on the date mentioned against accounts and stated hereinafter calling upon the Borrower(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general, that the undersigned has taken Possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under Sub-Sectior (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the date mentioned against account.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property & any dealings with the roperty will be subject to the charge of the BANK OF INDIA, GURGAON, SECTOR 40 BRANCH for an amount and interest thereon

The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower, Guarantor & Mortgager	Date of Demand Notices	Date of Possession	Amounts O/s as on Date of Demand Notices	Description of the Immovable Property/ies	
Borrower(s):- M/s Shree HD Enterprises (Prop Mrs. Sushila Devi)		17.08.2023	interest thereon.	All that part and parcel of the property consisting of Plot No. 28 situated at	
Mrs. Sushila Devi) Khewat / Khata No. 482/25/489/8 MU No. 59 Killa No. 6/2(3-9) Village Fazilpura Jharsa, Tehsil Badshahpur, Distt. Gurgaon, Haryana. Bounded:- On the North by: Property of others; On the South by: 25 Feet Road; On the East by: Property of others; On the West by: 27 Feet Road.					
Date: 21.08.2023	ate: 21.08.2023 Place: Gurgaon AUTHORIZED OFFICE				



🕂 HDFC BANK

Nature of the

Facility/ A/c No.

Cash Credit

50200031423<u>899</u>

NC Term Loan GECI

8399748

Date: 22.08.2023.

Place: Firozabad

Call: 022-4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com

and the same will be charged with effect from their respective dates.

Name of Borrowers &

Co-borrowers/ Mortgagor

M/s Bihari Ji Enterprises, Through Its Partner Mr. Gaurav Bansal, S/o Sh. Anil Kumar Bansal And Sanjay Bansal, S/o Sh. Hari Shankar Bansal, Add:

Sanjay Bansal, Sio Sh. Han Snankar Bansal, Add: 54/1 Gali No.1, Saraswati Nagar, Firozabad Uttar Pradesh-283203 (Borrower). 2. Mr. Radhey Shyam Bansa, Sio Sh. Hari Shankar Bansal, Add: 42/6 D Lahari Compund, Firozabad Uttar Pradesh-283203. (Guarantor & Mortgagor)

3. Mr. Gauray Bansal, S/o Sh. Anil Kumar Bansa Add: 42/6 D Lahari Compund, Firozabad, Uttar Pradesh - 283203. (Partner & Co Borrower)

4. Mr. Sanjay Bansal, S/o Sh. Hari Shankar Bansal, Add: 42/6 D Lahari Compund, Firozabad, Uttar

Pradesh - 283203. ((Partner & Mortgagor))

LEGAL CELL

jendra Space, Plot No 6, Sector - 16B, Awas Vikas, Sikandra Yojna, Agra - 282007

Outstanding as per 13(2)/Notice Date

14.07.2023

Details of

Secured as Assets

Municipal Record As Municipa

No. 42/6C Bounded By : North: Property

Of Shri Babu Ram Gupta Tambaku Wale, **South** : House Of Shri Sudhir Kumar Now Of

Shri Kallu (Mama Hotel Wale).

East : Gali-Rasta, West : Property Of Shri Anil Kumar

Bansal And Shri Mukesh

Rs. 49,51,294/- Property No.42/6d, Situated AI 05.02.2023 as on 04.07.2023 M o h. i e h r i C o m p o u n d , / Notice Date: Firozabad 283203 Recorded In

Date

of NPA

For HDFC Bank Ltd.

Authorised Officer

कब्चा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर-17 ए, चंडीमब (तृतीय व चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया व प्रकरण सं.: OA/392/2019 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठिव अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स) एक्स. नं.: 1974 बैंक ऑफ महाराष्ट विरुद्ध नरेंद्र वशिष्ठ प्रति, (1) नरेंद्र वशिष्ठ . ो /डब्ल्य /एस /ओ — ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र **नरेंद्र वशिष्ठ** पुत्र ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र, मकान नं. 2084 तथा 2085 सेक्टर 6, बहादुरगढ़, जनपद झज्जर, हरियाणा (2) ब्रह्मचारी कौशलेन्द्र, सुरभि सेवा सदन, बेरी मार्ग, टांडा हेड़ी के समीप, झज्जर, हरियाणा न्यायालयी आदेश (समन्स) जबकि, OA / 392 / 2019, दिनांक 08 / 08 / 2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के सम सूचीबद्ध किया गया था। ... जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 37,42,498 /—** के ऋणों की वसुली हेत् आपके विरुद्ध दर्ज अधिनिय की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स⁄सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशिव केया जाता है कि:– (j) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं/दिखा कि जिस राहत हेत् प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए: (ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक ३ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों ए रिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करन (iii) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूट आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तिय और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;

(jv) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किर्स . भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभति हित सजित किया गया है उसको और⁄या मल आवेदन—पत्र व क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे व माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तिय की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियं पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे। आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुर करने और **22–11–2023 को पर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्टार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जार

है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएग आज दिनांक 16—08—2023 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स निर्गतार्थं प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) PUBLIC NOTICE NOTICE are hereby given that the below mentioned Sub Brokers / Authorised Person are no longe affiliated as Sub Brokers / Authorised Person of Kotak Securities Limited.______ Sub Broker/ Authorised Exchange Registration Numbers of Sub Broker/ Authorised Person Trade Address of Sub Broker Authorised Person Person Nam NSE - AP0291118061 Shop No 3 Second Floor 34, Navyug MCX - 150286 Market , Near Gda Office, Ghaziabad Aditi Dhama Aditi Dhama 201001 Ashish Saha Ashish Sahai NSE - AP0291438991 8 217, Indira Nagar, Lucknow, Agra BSE - AP01067301144180 226016 Deena Akta NSE - AP0291385511 Flat No 802 Arihant Altura, Abhay Khan Deena Akta 2 Indirapuram, Ghaziabad-201014 C 177 AApollo Hospital, Sector 26 Noida Gautam Buddha Nagar, Noida-201301 Gauray Garo Gauray Garo NSE - AP0291540101 MCX - 15742 Gurmeet Sing Chadha NSE - AP0291102441 7214 Tower-7 Ats, One Hamlet Sector BSE - AP0106730198942 104, Gautam Budha Nagar, Noida-201301 Surmeet Singh Chadha NSE-AP0291489163 in4 303 Eldeco Amantran Fng BSE-AP01067301146916 Expressway Service Rd Nr Hdfc Bank, Eldeco Magnolia Park Sector 119, Noida-201307 Ka Wealth Ka Wealth rivate Limite ivate Limite NSE - AP0291116491 E 58 Lal Baag, Near Sabzi Mandi, Lor MCX - 148024 Dehat, Ghaziabad-201102 Kanchan Kanchan Chauhan Chauhan NSE - AP0291096381 H No-2/132, Rajendra Nagar Sector-BSE - AP0106730176843 Sahibabad, Ghaziabad-201005 Kavita Sharm avita Sharma 4/118 B Ram Nagar Colony, Civil Lines Near Ramraghu Hospital Civil Lines Agra-282002 Kornal Surana Komal Surana NSE - AP0291100801 Sk I 25 LGF 06 Shop, Indirapuram GZB Ghaziabad-201014 Meena Srivastava Meena Srivastav NSE - AP0291469961 Plot No 465 1st Floor Uk 2, Ecotech Greater Noida, Noida-201306 Moonshine Wa To Growth LLF NSE - AP0291560774 Voonshine Way To Growth LLP Nidhi Kans Nidhi Kansal NSE - AP0291108951 House No, 136 New, Kot Gao Ghaziabad-201001 NSE - AP0291113591 Rajbhar Tola Ward, No 19 Moharipu BSE - AP01067301120322 Gorakhur, Agra-273007 Pinki Gupta Pinki Gupta NSE - AP0291466541 60, Islamabad Kalda, Gautam Buddha Pooja Pooja

Nagar, Noida-203207 MCX - 155174 B 10 Krishna Block Nandini Gowlo Dham, Vrindavan Mathura, Near Radha Puja Singh NSE - AP0291118101 Puja Singh Florence, Mathura-281121 NSE - AP0291394161 Satya Prakash Kushwaha Satya Prakash Kushwaha Flat 1055 Niti Khand, 1 Indirapuran Ghaziabad, Ghaziabad-101014 MCX - 159483 NSE - AP0291112161 15 A 21 Ats Village, Sector 93a Noida Gautam Budh Nagar, Noida-201304 /ardhman Jain Vardhman Jaiı

Please note that above mention Sub Brokers (SB)/Authorised Person (AP) are no longer associate with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kota Socurities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any quaries for the transactions till date nvestors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification alling which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Tailing which is that be deemed that there exists ho queries against the above memored SB/AP.
Fortak: Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla
for a securities Complex, Bandra (E), Mumbal 400051. CIN: U9999MH1994PLC134051, Telephone
No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com
Correspondence Address: Infinity IT Park, Bilds, No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malac
(East), Mumbal 400097. Telephone No: 4285825. SEBI Registration No: INZO0200137 (Member o'
NSE, BSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP00000258, and Research Analysi
INH000000586. NSDL/CDSL: INI-N-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Sandeep Gupts
Call 022-4258 A84, or Enail ks compliance@kotak com NH000000586. NSDL/CDSL: IN-IN-DF-629-2021. Comp Call: 022-4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

पंजीकृत कार्यालयः येस बैंक हाऊस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ✓ YES BANK पाजाकृत काशालय. ५५ न्य र सांताकूज ईरट, मुंबई–400055

इनसिल्को लिमिटेड (दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैण्ठिक परिसमापन) सीआईएन : L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यालय : ए-६ यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, माप्तीयग्राम, गजरौला, जिला– अमरोहा, यूपी. – 244223

फेन : 09837923883, फैक्स : (06024) 252348, ईमेल आईडी : insito2@gmail.com, केल्साइट : www.insitooindia.com

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के लिए सूचना रतदवारा सचना दी जाती है किः

कम्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और तदधीन विरोक्त नियमों तथा सेक्षे (सूचीयन दायित्व और प्रकटोंकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कापेरिट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 और, 2020 के जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020 के 20/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के 02/2021, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के 21/2021, दिनांक 5 मई 2022 के 02/2022 तथा विनिमय बोर्ड (रेसेबी) के दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में उनके रार्थुलर नंबर संवी / एचओ / शीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / भी / 2020 / 19 (जिसकी वेधवा से मी ने जपने सर्कुलर नंबर सेवी / एचओ / शीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / भी / 2020 / 10 (जिसकी वेधवा सेवी ने जपने सर्कुलर नंबर सेवी / एचओ / शीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / भी / 2020 / 19 (जिसकी वेधवा सेवी ने अपने सर्कुलर नंबर सेवी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / भी / 2020 / 19 (जिसकी वेधवा सेवी ने अपने सर्कुलर नंबर सेवी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / भी / 2021 / 11 को दिनांक 15 जनवरी 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था) तथा दिनांक 5 जनवरी 2023 के सर्कुल ('सेवी सर्कुलर नं सा इस संबंध में जाशे किए गये हो और कंपनी को वीडियो कॉन्फ़ेरिया (यीसी) / अन्य ओडियो विज्ञाक साधनों (ओएयीएम) की सुविधाओं के माध्यम से उनकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए स्वीकूलों प्रदान करती है, ताकि नोटिस में एजोएम निर्टिष्ट व्यक्तीयिक कोन्देन नियादित किये जा सर्व । मित्रमी य स्वेट्र ने दिया क्रंग्री के पित्र फिर्ड कि वीर्कि सामान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए म्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम. 2013 के सभी लाग प्रावधानों और तदधी

त्तित्रीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक क रिपोर्ट, लेखा–परीक्षण किए गये वित्तीय विवरण और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेद रिपोट, लखा—रहावा) गिर पंथ पिता पिपर पंथ पिता प्रियर और पिता पर्य 2022–23 के लिए अन्य आवस्यक प्रतासक शामिल हैं, उन्हें कंपनी के उन सदस्यों को केवल ई—गेल अर्थात इतेक्ट्रॉनिक रूप द्वारा सेजा जाएगा जिन सदस्यों के इंसेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और श्रेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत किए गये हैं, और जिनके ई—मेल कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों ("डिपॉजिटरी") के साथ एमसीए जिनके ई--सेल कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों ("डिपॉजिटरी") के साथ एमसीए के अनुसार पंजीकृत किए गये हैं। कंपनी अपने सदस्यों को इतेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटेंद्र") का उपयोग करले, वीसी / ओविएस सुविधा के माध्यम से एजीएम के मात ने के लिए वीर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए वेर्र्स राजन की सुविधा प्रयान करेगी और एजीएम के दौरान रिमोट इतेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("एनस्सडीएल") के माध्यम से की जाएगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट इतेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मात लेने या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के दरीके एजीएम के चौरान है प्रवान हि पार है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बान ते दाव स्वत्म के दरीके एजीएम की मुवान स्वित्म है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए सम्भिलित किया जाएगा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सुबन और अन्य प्राणीक दरनकोर कर्जन की विस्ताह ट अप्रभागित कि माध्यम स्वार्टिंग हाने होने हरे हो उस से स्व মাধীয়ে বহুবোৰ কাৰ্যনা কি বিৰম্মান্থৰ www.insilcoindia.com और বাবেন্দ্ৰ বিশিষ্ঠ কে ঠাৰমান্তৰ কাৰ্যনা কৰা বৰুমান www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https%//www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध

- . डीमैटरियलाइण्ड मोड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में, भौतिक रूप में शेयरचारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने इंमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से वोट डालने का तरीका 35वीं एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।

ना।एस में प्रदान कया गया है। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर रखे हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे सवस्य अपना नाम, फोलियो नंबर, पूपा पता, पैन कार्ड सहित पंजीकृत किये जाने वाले ईमेल पते का उल्लेख करते हुए या पैन कार्ड के स्थान पर कोई भी दस्तावेज (जैसे ब्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति के साथ, कंपनी के ईमेल पते Insilco2@gmail.com पर ईमेल करें, जिन सदस्यों के पास डीमेट फॉर्म में शेपर रखे हैं वे सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के भर इनक करों (जान संयस्था के बाद कान्द्र कान न संयस एवं ठ के संयस्थ जपना विजाजाटरा बातासर का साथ अपना इंसेल पता आरखेट कर सकते हैं। यदि कंपनी/आसटेश के पास पहले से पंजीकृत ई-नेज आईडी में कांई बदलाव होता है, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के इंमेल पते insilco2@gmail.com और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध मे

संबंध में कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com और इलेक्ट्रोंनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में डिपॉफिटरी प्रतिमागी को तुरंत ऐसे बदलाव की सूचना दें। कंपनी के वे सदस्य जिनके पास डीमटेरियलाइण्ड अर्थात अप्रत्यक्षीकृत रूप में शेयर रखे गये हैं, वे अंतिम तिथि यानी बुघवार, 13 सितंबर 2023 को भीतिक रूप में या रिमोट ई—वोटिंग द्वारा ओएवीएम और एजीएम के माध्यम से वोट डालने या वीसीष्ठ्रोएवीएम के माध्यम से एजीएम की बैठक में भाग लेने के इकदार होंगे। रिमोट ई—वोटिंग सुक्रवार, 15 सितंबर 2023 को प्रातः 9:00 बजे (मारतीय समयानुसार) शुरू होगी और मंगलवार, 19 सितंबर 2023 को सांयकाल 5:00 बजे (मारतीय समयानुसार) पर समापा होगी। उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉडबूल असम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य सिगेट ई—वोटिंग के माध्यम से किसी प्रत्वाव पर वोट डाल देता है. तब उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस वेस्पी म्रे दोट हालने के हकदार नहीं होंगे। "वेस्त्र प्रत्या वेट डालने देता है. तब उसे बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

दोबारा बोट डालने के हकदार नहीं होंगे। चूंकि सदस्यों की मौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालोंकि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-बोटिंग") के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकवार होंगे। कॉर्पोरेट निकाय जिनके अधिकृत प्रतिनिधि वोसीकोएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के इकवार हों जनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को inslico2@gmail.com पर अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट डालने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति inslico2@gmail.com पर एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले ई–वोटिंग के माध्यम से मेज केंदे। ਟੇਰੇਂ ।

भेसर्स एपीके एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री अजय कुमार प्रजापति को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांघ करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ाथा छ। जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते पर अपना अनुरोध एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले inslico2@gmail.com मेजकर स्वयं को पंजीकृत और संपर्क कर सकते हैं।

Insilio2@gmail.com नजकर स्वयं का पजाकृत जार संपर्क कर सकर है। जो सदस्य कोई प्रसन पूछाना चाहते हैं या वे किसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं, उनसे अनुसेच किया जाता है के वे अपने पंजीकृत इंसेन पर अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईंमेल पते insilco2@gmail-com पर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी को ईंमेल लिखकर/मेजें।

परोक्त जानकारियां एमसीए और सेबी के लागू सर्कुलर के अनुपालन में कंपनी के समी शेयरधारकों की

तिथिः 21 अगस्त 2023

स्थानः पलवल

कृते इनसिल्को लिमिटेड (दिनांक 25-06-2021 के प्रमाव के तहत स्वैच्छिक परिसमाप-हस्ताक्षर / गीतिका वाष्ण

कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकार



नई दिल्ली -110070 कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 एवं ए 2,फेस-II, नोयडा-201305, (उ०प्र०) इण्डिया, दूरभाष:+91 120 4581400, CIN: L74899DL1994PLC061753 ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट : <u>www.unipartsgroup.com</u>

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर- सी 6 एवं 7, बसंत कुंज

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड की उन्नतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एवं ई—वोटिंग की जानकारी

एतद्तद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड (**"कम्पनी"**) के सदस्यों की **उन्नतीसवीं** साधारण बैठक ("एजीएम") कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015, के लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, साथ में पठित परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक दिसम्बर 28, 2022 साथ में पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक मई 05, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक मई 05, 2022 ('संयुक्त रूप में संदर्भित एमसीए परिपत्रों') एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक जनवरी 5, 2023 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक मई 13, 2022 ('सेबी परिपत्र') ('संयुक्त रूप में प्रभाग प्रायम् गाउँभवग्र पाउँभवग्रि गाउँभारि भार घर्यटा व्यापन में उन घर पर महारा मार्टिय (भाषा मार्ट्स) (अपुभ संदर्भित एमरीए परिएसों एसं सेश्री परिपर्शी) के अनुमालन में उन्मतिसयी एगीएम बुलावे की सूचना (**'एपोएम प्रूपना'')** में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विडियों कान्क्रेसिंग (**'वीसी''**) अथवा अन्य आडियो विजुवल माध्यम ('ओए**पीएम'**) द्वारा **शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को साय 04:30 बजे (आईएसटी)** पर बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के त की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओ एम सुविधा द्वारा शामिल होकर भाग ले सकते हैं वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 की धारा के अन्तर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जायेगा। परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022-23 की वाषिर्क रिपोर्ट मार्च 31,2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन को मिलाकर ("वार्षिक रिपोर्ट") सभी सदस्यों, जिनके ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदार अथवा कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड हस्तांतरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम अथवा आरटीए") के पास पंजीकृत को केवल ईमेल द्वारा भेज दी गई है। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना ईमेलिंग द्वारा भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिर्क रिपोर्ट की साफ्ट प्रतिलिपि साथ में कम्पनी की वेबसाइट <u>www.unipartsgroup.com</u>, स्टॉक एक्सचेन्जों यानि बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटों <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर क्रमशः एवं लिंक इनटाइम, ई—वोटिंग एजेन्सी की वेबसाइट <u>https://instavote.linkintime.co.in</u> पर उपलब्ध है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शकवार 15 सितम्बर 2023 ("कट-ऑफ तिथि") है। कम्पनी के जिन शेयरधारकों के नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका वोटिंग अथवा लाभदाई स्वामी की सची में अंकित होंगे, केवल वही एजीएम के दौरान इलेक्ट्रानिकली रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी संकल्पों पर वोट देने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि को शेयरधारक नहीं है उसे इस संचार को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए। शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार कट–ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल में उनके हिस्से के अनुपात में होगी। कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर्स अधिग्रहित किये हों और सूचना को भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट—ऑफ तिथि को शेयर्स धारण करता हो, लॉगइन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर आग्रह भेज सकता है। हालाँकि, यदि वे पहले से ही ई–वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम पर पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी एवं पास वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।



क्षेत्रीय कॉर्यालय – दिल्ली

अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रवशन ऑफ फायनांशियत असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धार (3(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार शलभ मल्होत्रा और परिणीता मल्होत्रा को 23.12.2019 की सूचना में वर्ण के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLKUN00422061 की राशि रू.54,88,662 /- (रुपए चौवन लाख अठ्ठासी हजार छ सौ बासठ मात्र) और 20.12.2019 🔰 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) वे साथ उक्त कॉनून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 17.08.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है वेशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततदारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.54.88.662 /- (रुपए चौवन लाख अङ्गासी हजार छ सौ बासठ मात्र) 20.12.2019 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्प डाउँमिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा । . उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है । स्वतंत्र मंजिल नं.डबल्युएफ-85/ डीयुपी जिसका सुपर एरिया लगभग 171.86 स्के.मी. (1850 स्के फूट), वॉटर साइड फ्लोर नामक योजना के तहत निर्मित इमारत की चौथी मंजिल पर, टीडीआई लेव ग्रेव सिटी में , कुंडली में स्थित, सोनीपत-131028, हरियाणा दिनांक:17.08.2023 स्थान ःसोनीपत मही / प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सीआईएन : L51909DL1981PLC012621 पंजी. कार्यालय :-प्लॉट नंबर 3-ए, प्रथम तल, ब्लॉक-एक्स, लोहा मंडी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली साउथ वेस्ट – 1100128 कार्पोरेट कार्यालय ≔ प्लॉट नंबर बी−103, द्वितीय तल, साउध्य सिटी ।, गुरूग्राम–122001, हरियाणा वेबसाइट : www.euroasiaexportsltd.com, ई–मेल : info@euroasiaexportsltd.com शेयरधारकों को सूचना तदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार 14 सितम्बर, 2023 को अप. 01.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना, जो एजीएम के आयोजन के संबंध में प्रसारित की जा रही है, सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। अधिनियम के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों तथा कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुल नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और समय समय प जारी अन्य सर्कुलर्स तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/ सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 ("सर्कलर्स") व अनुसार, कम्पनीज को 30 सितम्बर, 2023 तक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), भारतीय प्रतिमूति एवं विनिमय बोड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियमावली") के प्रासंगिक प्रावधानों और इन उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा संदरस्यगण आगामी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं। कम्पनी का पंजीकत कार्यालय बैठक का स्थान माना जाएगा। उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट वि.व. 2022-23 सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वाराँ उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ई—मेल पता कप्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वि.व. 2022–23 कम्पनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsltd.com तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सचना में सचीबद सभी प्रस्तावों पर उनका वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ("ई-वोटिंग") उपलब्ध करवा रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग हेतु विस्तत प्रक्रिया दी गई है। यदि आपकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजा जा रहा है। यदि आपने अपना ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, कृपया वार्षिक रिपोर्ट तथा ई—वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई—मेल पता पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें भौतिक रूप में धारण निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रति ई–मेल द्वारा रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट/कम्पनी को info@skylinerta.com पर भेजें :



जय भारत मारूति लिमिटेड CIN: L29130DL1987PLC027342 पंजी. कार्यालयः 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019. फोन.: 011-26427104: फैक्स: 011-26427100 {—मेल: jbml.investor@jbmgroup.com; वेबसाइट: www.jbmgroup.com



अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना सरफासी नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण व पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किय जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक⁄प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिनका येर बैंक लि. अर्थात प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गय है, **(1) सुश्री कौसर इदरीश और (2) मो. इदरीश** से प्रत्याभूत ऋणदाता को देय दिनांव 18.05.2022 को देय राशि रु. 16,84,692.72/- (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बानवे और बहत्तर पैसा मात्र) और अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज व प्रभारों की वसूली के लिए ''जो है, जहाँ है'', ''जहाँ है, जैसी है'' और ''जो भी है'' आधार पर 15 सितंबर, 2023 को बिक्री की जायेंगी। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व समयादेश लेकर इच्छुव पार्टियों / निविदाकारों द्वारा संपत्ति का निरीक्षण 8 सितंबर, 2023 को समय पूर्वा. 11:30 से अप. 12:30 के बीच किया जा सकता है।

संपत्ति का विवरण

त्तपारत का पिकरण				
कर्जदार / जमानती	(1) सुश्री कौसर इदरीश और (2) मो. इदरीश			
(ओं) / प्रतिभूति	दोनों निवासीः बी—5 / 10, फ्लैट नं. जीएफ—03, डीएलएफ अंकुर			
प्रदाता⁄ओं के	विहार, लोनी गाजियाबाद—201102, अन्य पताः ए—365, गली नं. 7,			
नाम	श्री राम कालोनी, खजूरी, दयालपुर, दिल्ली–110094			
18.05.2022 को	रु. 16,84,692.72 /— (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बानवे			
देय राशि	और बहत्तर पैसा मात्र)			
संपत्ति का विवरण	प्लॉट नं. बी–5/10, एलआईजी फ्लैट नं. जीएफ–03, भूतल, बांयी ओर पीछे की साइड, डीएलएफ अंकुर विहार, गाँव–लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट नं. बी–5/11, पश्चिमः प्लॉट नं. बी–5/9, उत्तरः प्लॉट नं. बी–3/17, दक्षिणः 9.00 मीटर चौड़ा रोड			
आरक्षित मूल्य(रु.)	आरक्षित मूल्य(रु.) रु. 9,50,000 / – (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)			
धरोहर राशि जमा (रु.)	रु. 95,000/- (रुपये पिचानवे हजार मात्र)			
भौतिक कब्जे की तारीखः 06 मार्च, 2023 मांग सूचना की तारीखः 22 जून, 2022				
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	१२ सितंबर, २०२३ समय अप. ३.०० तक			
ई—नीलामी की	15 सितंबर, 2023 समय पूर्वा. 11:00 से अप. 2:00 तक			
तिथि व समय	5 मिनट अवधि के विस्तारों सहित			
बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.yesbank.in) पर				
दिया लिंक https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property देखें।				
निविदा दस्तावेज∕ई—निविदाकरण कैटलॉग प्राप्त करने या अचल संपत्ति∕प्रत्याभूत परिसंपत्ति के				
निरीक्षण में किसी कठिनाई की अवस्था में और पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: संबंधित अधिकारी,				

येस बैंक लि., श्री मनीष कुमार, संपर्क नं. +91–9250003060 या ई–मेलः manish.kumar51@yesbank.in और अधिकारी, मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाईगर), अहमदाबाद, वेब पोर्टल पत https://sarfaesi.auctiontiger.net, निविदाकार सपोर्ट नंबर: +91 9265562821/1 और 9978591888, 079—68136880 ∕ 68136837, ई—मेलः support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्माः 9978591888

जैसा कि अधिनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित है, हमारे सभी बकाया हमारे द्वारा वहन सभी लागत प्रभारों और व्ययों सहित बिक्री की तिथि या हस्तांतरण से पूर्व किसी भी समय हमें चुकता कर दिए जात हैं तो प्रत्याभत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बिक्री या हस्तांतरित नहीं की जायेगी. और प्रत्याभत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

कर्जदार⁄जमानतियों को बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत उपर्युक्त	
प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर इसके भुगतान के लिए बाध्यकारियों (ऑब्लिगेंट्स) को सूचना	
के रूप में माना जाए। हस्ता./	
दिनांकः 22.08.2023 (प्राधिकृत अधिकारी)	
स्थानः गाजियाबाद येस बैंक लिमिटेड	

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

- (क) सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग अथवा ई—वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है:
- (ख) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्न वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई—वोटिंग का प्रारम्भ	मंगलवार, सितम्बर 12, 2023 (प्रातः 09:00 बजे आईएसटी)
रिमोट ई—वोटिंग का समापन	वीरवार, सितम्बर 14, 2023 (सायं 05:00 बजे आईएसटी)

- (ग) उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय के उपरा<u>न्त</u> रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी और उपरोक्त समय की समाप्ति पर लिंक इनटाइम द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉडयूल को तुरन्त अक्षम कर दिया जायेगा।
- (ध) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमाट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है वं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग ले सकते है, लेकिन फिर से वोट देने से हकदार नहीं होंगे।
- (ण) एजीएम के दौरान भी ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा वोट देने के पात्र होंगे।
- (त) एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद, सदस्य को उसे संशोधित अथवा बदलने के अनुमति नहीं दी जायेगी।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा ई–वोटिंग एवं शामिल होने की विस्तारित प्रक्रिया जिसमें भौतिक/डीमैट प्रपत्र में शेयर्स धारित सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

ईमेल पतों के पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

- (क) डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदारों, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, के पास पंजीकृत करा लें।
- (ख) भौतिक प्रपन्न में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी/आरटीए को लिखित में फोलियो न०. शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे एवं पीछे) पैन कार्ड की (स्वअभिप्रमाणित स्कैन कॉपी) एवं आधार की (स्वअभिप्रमाणित स्कैन कॉपी) को पंजीकत⁄अपडेट करा लें। जो सदस्य भौतिक प्रपत्र में शेयर धारण करते हों, उपरोक्त दस्तावेजों को अपडेट/पंजीकरण कराने के लिए ईमेल पते compliance.officer@unipartsgroup.com अथवा आरटीए के निम्न पते पर भेज सकते हैं।

मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, यूनिटः यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम मंजिल प्लॉट न॰ एनएच 2. एलएससी सी-1 ब्लॉक नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न अथवा समस्या के लिए शेयरधारक लगातार प्रश्न पछने ("एफएक्यूज") को संदर्भित कर सकते हैं अथवा ई–वोटिंग नियम पुस्तिका की सहायता शाखा https://instavote.linkintime.co.in अथवा श्री राजीव रंजन, एवीपी-ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम, सी-101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई- 400083 को <u>enotices@linkintime.co.in</u> पर ई—मेल द्वारा लिख सकते हैं दुरभाष न॰ 022 - 49186000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना और विशेषकर, एजीएम में शामिल होने के अनुदेशों, एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग अथवा ई—वोटिंग द्वारा वोट करने के तरीकों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

मंडल की ओर से उनके लिए यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड हस्ता०/-जतिन महाजन तिथि : अगस्त 21, 2023 कानूनी प्रमुख, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्यान ः नोयडा

वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:15 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कॉर्पेरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक, 5 जनवरी, 2023 और समय—समय पर जारी अन्य सभी लागू कानून एवं परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक आम बैतक की सचना में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीसी / ओएवीएम सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) को नियुक्त किया है।

. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वित्तिय वर्ष 2022–23 उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट और डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटैक की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी

.भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, रिमोट ई—वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने और वार्षिक आम बैठक मे शामिल होने के लिए प्रामाणिक पत्र प्राप्त करने के लिए केफिनटैक से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्य जिसने रिमोट ई—वोटिंग से अपना वोट दे दिया है, वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकता है, परंतु वह पुनः अपना वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।

.ई—मेल पते रजिस्टर/अद्यतन करने का तरीका:

भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई—मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि फार्म आईएसआर—1, साथ में अपने फोलियो नंबर का जल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र शेयर प्रमाण–पत्रों की स्कॅन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन की स्वयं–सत्यापित प्रति तथा किसी भी पते के सबूत की स्वयं–सत्यापित प्रति रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को एफ–65, प्रथम तल, ओखला फेस 1, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली—110020 को प्रस्तुत करके इसका पंजीकरण/अद्यतन करा

डीमैटीरियलाइज़्ड स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ई—मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करा लें जिसके पास उनके डीमैट खाते का रखरखाव किया जाता है ।

. डीमैंट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे लामांश अपने बैंक खाते में सीधे प्राप्त करने के लिए डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए और कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास निरस्त चैक के साथ अनुरोध भेजकर बैंक खाता अधिदेश अद्यतन करा लें।

जहां कहीं सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, वे एफ–65, प्रथम तल, ओखला फेस 1, ओखला औद्योगिक एसटेट, नई दिल्ली—110020 के पते पर कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को विधिवत भरा हुआ आईएसआर-1 प्रस्तुत करके अपने बैंक विवरण अद्यतन करा सकते हैं। शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं कराए हैं, लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चैक उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे अथवा समय पर लामांश प्राप्त करने के लिए वे इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के लिए विकल्प का अनरोध कर सकते हैं ।

. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उददेश्य के लिए और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए रविवार, 10 सितंबर, 2023 से शनिवार, 16 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगा |

ई—वोटिंग पोर्टल बुधवार, 13 सितंबर, 2023 (प्रातः 9.00 बजे) से शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (साय 5.00 बजे) तॅंक मतदान के लिए खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो कट ऑफ तिथि शनिवार, 9 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में अथवा डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, मतदान के लिए हकदार होंगे |

.36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना शेयरधारकों को लागू नियमानुसार उनके पंजीकृत ई—मेल आईडी पर बाद में प्रेषित कर दी जाएगी।

	कृते जय भारत मारूति लिमिटेड
	हस्ता/-
	हस्ता/- रवि अरोड़ा
तिथि : 21 अगस्त, 2023	कंपनी सचिव और
स्थान : गुरूग्राम	अनुपालना अधिकारी